

APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE सहायता हेतु आवेदन प्रारूप		(Healthcare) (स्वास्थ्य देखभाल)	 Building Block of Life	
APPLICATION No.: आवेदन संख्या :	3/0524/0418	APPLICATION DATE: आवेदन तिथि 21/5/24		
NAME of APPLICANT: आवेदक का नाम		AGE-YEARS वय-वर्ष	SEX लिंग	
Umashankar		62	m	
FATHER'S/SPOUSE'S NAME: पिता/कानूनी जीवन का नाम		Slo Hanumanthachari		
PRESENT RESIDENCE ADDRESS: काशीनगर जायाकोप पट्टा		Dibrasamaballi village Kasuba		
Hobli: mudur taluk kolar Karnataka		PERMANENT RESIDENCE ADDRESS: स्थाई जायाकोप पट्टा		
		Pn Dp Post -oj 04/18 virender		
OCCUPATION: जबरदस्ती	unemployed	MARRIED (विवाहित) / UNMARRIED (विवाहित नहीं)		
TOTAL ANNUAL INCOME: कुल वार्षिक आय		(Attach Proof of Income) (आय का साक्ष दस्तावेज़)		
PAN No. संख्या खाता संख्या				
ARE YOU AN INCOME TAX ASSESSEE (Tick whichever is applicable): क्या आप आय कर रहे हैं (जो मान्य हो उस पर सही का विवरण दर्शाए)				
Yes / No हाँ / नहीं				
FAMILY DETAILS परिवार विवरण				
Sr. No. क्रम संख्या	Name of Family Member परिवार के सदस्यों का नाम	Age (Years) उम्र (वर्ष)	Gender लिंग	Relation with Applicant आवेदक के साथ सम्बन्ध
①	pushpanna	38/1	F	Daughter
②	Nimmykharsree	14/1	F	Daughter
③	prakashanth	20/4	M	Son
BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable) सहायता के लिये विनाश अधार				
BPL Card (Attach Card Copy) गरीबी रोका के ग्रन्थ प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र को लापा प्रति संलग्न करें)	EWS Certificate (Attach Certificate Copy) लापा लाप वर्ग प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र को लापा प्रति संलग्न करें)	Ration Card (Attach Copy) उपचारक कार्ड (प्रमाण पत्र को लापा प्रति संलग्न करें)	Any Other Basis/Proof अन्य कोई साक्ष	
"PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE: सहायता हेतु किये गये विवरी का उद्देश्य: सहायता हेतु किये गये विवरी का उद्देश्य:				
Sr. No. क्रम संख्या	Medical Reports/Prescriptions Attached अस्पताल/डॉक्टर से कार्ड की गई प्रतिवेदन सूची संलग्न			
①	Diagnosis : LG catarract LG catarract Surgery:- LG cat-ICRTO			
ASSISTANCE BEING AVAILED for SAME "PURPOSE" from OTHER SOURCES इस उद्देश्य के हेतु कोई अन्य सहायता किसी अन्य स्रोत से लिया गया हो?				
Sr. No. क्रम संख्या	NAME of OTHER SOURCE अन्य स्रोत का नाम	AMOUNT of ASSISTANCE BEING AVAILED लोग सहायता दी गई		
①	DBCS	2000/-		

DECLARATION by APPLICANT: अर्थात् द्वारा प्राप्त करता

- I hereby confirm that all details in this Form are True to the best of my knowledge. Any false statement will render my Application & ongoing assistance, if any, liable for rejection/cancellation.
 - I solemnly confirm that assistance, if received from Koshika Foundation, will be used only for the "purpose", as stated in this Form, for which such assistance was requested by me.
 - I hereby confirm that I have not & will not in future, avail of reimbursement, in part or in full, from any other source/employer/insurance company, of the amount for which this assistance is requested.

1) मैं यथार्थ कानून से इस प्राप्ति में विवरण मेरी जाहाजीरी के अनुसार सत्य पर्याप्त है। यह कोई विवरण एवं कल्पना जगत् यात्रा है तो मेरी सहायता निधि की जा सकती है।

2) मैं द्वारा ये सहायता गरी "कांसिलफ काट-डोर्सन", ये लौ जा रही है, समकालीन उसी उद्देश्य की तृतीय को दिये गए जारीगा, जो इस प्राप्ति में पाया गया है।

3) मैं पूरी कानून से ये विवरण जास्तीता हूँ कि प्रधान की जूँ है, उम यात्रा का वासिन एवं कल्पना विकल्प विनियोजनाकारी वास्तविकी से न ले लिया है और न ही परिवर्त्य में भूटा।

AGREEMENT by APPLICANT (आवेदक द्वारा सहमति)

- 1) By affixing my signature or thumb impression on this Form, I (Applicant) hereby agree & authorise Koshika Foundation and it's Trustees to use/publish/put-up/reproduce my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, through any medium, including but not limited to verbal, print, electronic, for soliciting donations for Koshika Foundation and/or disseminating information about it's activities/achievements. Such use of my photo & details can be made by Koshika Foundation before or after my treatment or fulfillment of the "purpose" for which assistance is being requested.

2) I (Applicant) further agree that any such use of my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, will not automatically entitle me for receiving or continuing the said assistance. The decision for granting and/or continuing the assistance will rest solely with the Trustees of Koshika Foundation, and their decision is this regard will be final and acceptable to me.

1) इस प्रत पा अपने हस्ताक्षर वा आगंते की जाप समाप्त, मि (अधिकारक) अपने सहायता की दुष्प्र करत है एवं "कोशिका फाउंडेशन नड़ी उम्मीदों" को अधिकृत करत है कि मेरा जन्म जल, धोये और जो विकास इस प्रत में योगदान है, उसे "कोशिका" एवं नदी, जल, वायव्य वृक्षों उद्देश्य से जुड़ी गतिविधियों और उत्तमताओं के लिए कियी गई प्रवाह यात्रा से उत्तम बदले के लिए अधिकृत है। ये प्रवाह वा विकास में इतना के पास है जब मेरे कारण के लिए "कोशिका फाउंडेशन" वा नदी अधिकृत है।

2) मि (अधिकारक) इस जात से सहायता है कि मेरा जन्म, जल, धोये और विकास जो कि सहायता के उद्देश्यों से प्राप्त है युक्त उन्नत सहायता का कामयार नहीं बनता। इस सम्बन्ध में "कोशिका" प्रबन्ध उम्मीदों का विश्व अभियान और भावधारी होगा।

APPLICANT'S SIGNATURE OR LEFT THUMB IMPRESSION:

निम्नलिखित वाक्यों का विवरण



AGREEMENT by HOSPITAL (संक्षिप्त दस्ता)

By affixing hereunder, signature of our Authorised Signatory for recommending this case/patient for financial assistance from Koshika Foundation, we (hereinafter) hereby affirm & accept following:

- (Hospital) hereby affirm & accept knowing:
1) that we neither are presently nor will in future avail of financial assistance from another NGO or any other source, for the same patient/case, as we are requesting to get from Koshika Foundation, to the extent that such assistance is granted by Koshika Foundation. If the requested assistance is not granted by Koshika Foundation, in part or in full, then the Hospital reserves it's right to make up the shortfall from another NGO or any other source. This confirmation essentially states that the Hospital will not avail any duplicate assistance for the same patient/case from any other NGO or any other source.
2) The assistance from Koshika Foundation is only financial in nature. The choice of the treatment/procedure advised/conducted by the Hospital on the patient, is based on the arrangement between the patient & the Hospital, and is in no way influenced by Koshika Foundation. Hence, the Hospital will assume sole & complete responsibility of the treatment & it's outcome & safety of the patient, and Koshika Foundation will have no role or responsibility in the matter.

अब अपनी समस्याएँ और उन से प्रभाविती को "वैज्ञानिक प्रयत्नशाला" से विचित्र सहायता हेतु विश्वासित की जाती है, जिसे उम् (इमलल) निम्न प्रकार से सम्बन्धित करती है:

- १) यह कि न तो भास्तव और न ही विविध में विविध साकारता किसी गैर साकारी संस्थान का किसी अन्य संस्था में उक्त ऐडीएससेरे में लगे या तो रहे हैं, जैसे कि हमने “कोशिका फारन्डेशन” में विविध विविध इकाएं के समर्थन में “कोशिका फारन्डेशन” द्वारा बदल देते हैं कि है। यदि “कोशिका फारन्डेशन” द्वारा साकारता विविध विविध संस्कृत हैं, मन्त्रु, नहीं किया जाता है तो साकारता किसी प्रयत्न ये वारकारी संस्था का किसी अन्य सामाजिक से साकारता होने का अविकार सुनिश्चित रखता है। इस पूर्ण में स्पष्ट बहु जाता है कि असाकारता विविध बदल लक्ष ऐडीएससेरे हैं कि विविध साकारी संस्था या किसी अन्य संस्था में नहीं संचालित होती।
 - २) “कोशिका फारन्डेशन” में नीर नहीं साकारता के काल विविध द्रष्टव्य की है। संकेत या हमस्तान द्वारा यी गई सालाह पा किये गये उपचार/इकाइया का चुनाव योग्य एवं हमस्तान के बीच का विवर है और “कोशिका फारन्डेशन” द्वारा किये गये उपचार का कोई रखाव नहीं है। इसलिये हमस्तान में योगी के इकाव सुधार और आने वाले की सही विधेयकीय योगी एवं हमस्तान की योगी और “कोशिका” को बोर्ड भवितव्य का कियोंदिया इस समझे में नहीं होती।

Mr. Lakshmipathi N
Manager Outreach

Date of Surgery अंगोल की तारीख	Dr. Laxmi Dorennavar MDS, MS, FRCS, FICO (Name of Doctor) Consultant - Phaco & Refractive	Institute for Diabetes & Eye Care (A unit of Shraddha Eye Care Trust.) • 16/M, Thimmaiah Road, Miller Tank Bed Area (Name, Designation & Stamp of Authorised Signatory on behalf of Hospital) नम व पद हमस्कूल अधिकृत अंगोल
31/5/24	KMC No. 90244	श्रद्धा एयर केंद्र

**Dr. Laxmi Dorennavar
MDBS, MSc, FPRS, FRCO
Consultant - Phases & Refractive**

ICMC No. 99244 OSHIKA FOUNDATION

Institute for Diabetes & Eye Care
(A unit of Shraddha Eye Care Trust.)
16/M, Thimmiah Road, Miller Tank Bed Area
(Name, Designation & Stamp of Authorised Signatory
on behalf of Hospital)
ग्राम एवं वर्षा अस्पताल अधिकारी

SIGNATURE of TRUSTEE 1

SIGNATURE of TRUSTEE 2
त्रस्टी एस्टेट २

Safary

Eric